

तुरंत रिलीज के लिए

हैलोवीन आ गया है!

इस वर्ष ब्रैम्पटन में स्पूकी और सुरक्षित रहें

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (13 अक्टूबर, 2021) – हैलोवीन (Halloween) आ गया है और इस वर्ष हर कोई सुरक्षित रूप से, कई तरह के ट्रिक-ऑर-ट्रीटिंग (भूतिया पोशाक पहनकर घर-घर जाकर कैंडीज मांगना) और स्पूकी जशन के लिए उत्साहित है।

इस वर्ष, निवासियों से अनुरोध है कि वे जशन मनाते हुए, स्वास्थ्य और सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दें। ट्रिक-ऑर-ट्रीटर्स से अनुरोध है:

- यदि आप बीमार हैं तो घर में ही रहें।
- जितना हो सके, अधिक से अधिक आउटडोर ट्रिक-ऑर-ट्रीट करें।
- रचनात्मक बनें और चेहरा ढकने वाली पोशाकें बनाएं! याद रखें कि पोशाक के मास्क का मतलब यह नहीं है कि आप अपना चेहरा न ढकें। गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े का बना साधारण मास्क) के ऊपर पोशाक मास्क नहीं पहनना चाहिए या चेहरा नहीं ढकना चाहिए क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है, यदि पोशाक मास्क सांस लेने में मुश्किल पैदा करता हो।
- दरवाजों पर भीड़ न लगाएं – बारी-बारी से जाएं, एक बार में एक।
- ट्रीट्स देने वालों के साथ हल्की-फुल्की बातचीत करते रहें।
- अच्छी तरह सफाई रखें और बार-बार अपने हाथ सैनिटाइज करें।

यदि आप ट्रीट्स दे रहे हैं:

- यदि आप बीमार हैं तो हैलोवीन के जशनों में हिस्सा न लें।
- ट्रिक-ऑर-ट्रीटर्स के साथ हल्की-फुल्की बातचीत करें।
- जब शारीरिक दूरी न रखी जा सकती हो तो चेहरा ढकने के बारे में सोचें।
- पोशाक में मास्क की तरह चेहरा ढकने का कपड़ा शामिल करने के बारे में सोचें।
- केवल खरीदी हुई और पैकेट बंद ट्रीट्स ही दें।
- ट्रिक-ऑर-ट्रीटर्स को उनकी ट्रीट्स के लिए गाने या चीखने के लिए न कहें।
- साबुन और पानी का प्रयोग करते हुए या हैंड सैनिटाइजर के साथ पूरी शाम बार-बार हाथ साफ करें।

हैलोवीन संबंधी सुरक्षा

हैलोवीन का जशन मनाते समय चौकन्ने रहें, आग संबंधी खतरों से बचें और चोटों को रोकें।

पोशाक चुनते समय:

- ठोकर लगने और गिरने से बचने के लिए पोशाकें छोटी रखें।

- आग रोधी पोशाकें और एक्सेसरीज चुनें।
- पूरी तरह रोशनी में रहें। चमकीले रंगों वाली पोशाकें चुनें, जिन्हें मोटर वाहनों वाले स्पष्ट तौर पर देख सकें।

सजावट करते समय:

- सूखे फूल, कॉर्नस्टॉक्स और कागज में बहुत जल्दी आग लग सकती है। जलती लपटों और ताप के स्रोतों से दूर सजावट करें।
- बाहर निकलने के रास्तों पर सजावट न करें और रुकावट न डालें।
- बैटरी से चलने वाली मोमबतियां अथवा जलती मोमबतियों की बजाय ग्लो स्टिक्स के साथ अपनी जैक-ओ-लालटेन जलाएं।
- ठोकर लगने के खतरों को दूर करें और ट्रिक ऑर ट्रीटर्स को सुरक्षित रखने के लिए आउटडोर लाइटें जलाकर रखें।
- सुनिश्चित करें कि घर के धुएं के सभी अलार्म अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।

ट्रीट एक्सेसिबिली

ब्रैम्पटन एक मोजैक है और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अपनी विविध कम्युनिटी में सभी के लिए सुलभता और अपनेपन की भावना को बढ़ाने के अवसरों की पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष के शुरु में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने ट्रिक-ऑर-ट्रीटिंग के रुकावट-मुक्त और सुलभ रास्तों में वृद्धि करने के लिए, अपने साइन बाइ-लॉ (साइन बोर्डों के बारे में उप-कानून) में संशोधन की मंजूरी दी थी। ब्रैम्पटन के मकान मालिक, निवासियों को यह बताने के लिए अपने सामने के लॉन पर ट्रीट एक्सेसिबिली (Treat Accessibly) का साइन बोर्ड लगा सकते हैं कि यदि किसी ट्रिक-ऑर-ट्रीटर को विकलांगता है, तो वह उनके घर पर बिना रुकावटों के हैलोवीन का अनुभव ले सकते हैं।

ट्रीट एक्सेसिबिली के लिए मकान मालिकों हेतु निम्नलिखित सुझाव भी हैं:

- सुनिश्चित करें कि ट्रिक-ऑर-ट्रीटिंग क्षेत्र के रास्ते में पूरी रोशनी है।
- झाड़ववेज और पाथवेज पर रखी चीजें हटाएं
- ट्रिक-ऑर-ट्रीटर के लिए बेहतर सुलभता हेतु झाड़ववे से कारें हटाएं
- झाड़ववे के अंत में, गैराज के बाहर या वाहन के ट्रंक पर ट्रिक-ऑर-ट्रीट स्टेशन बनाएं।
- झिलमिलाती लाइटों या तेज़-आवाज वाली, अचानक ऊंचे शोर करने वाली चीजों का प्रयोग करने से परहेज करें।
- पालतू जानवरों को सुरक्षित और बचाकर रखें।

ट्रीट एक्सेसिबिली के बारे में अधिक जानने के लिए, www.treataccessibly.com पर जाएं। सिटी में सुलभता के बारे में अधिक जनकारी के लिए, www.brampton.ca/accessibility पर जाएं।

फ्राइट नाइट्स

ब्रैम्पटन के चुनिंदा रेक्रिएशन सेंटर्स में व्यक्तिगत फ्राइट नाइट्स (Fright Nights), 16, 22, 23 और 29 को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक हो रही हैं। रजिस्ट्रेशन जरूरी है और दाखिला मुफ्त है। मज़ेदार स्पूकटाक्यूलर पारिवारिक प्रोग्रामों के लिए हमसे जुड़ें, जिनमें शामिल हैं:

- स्पूकी फैमिली मूवी नाइट (Spooky Family Movie Night) *

- वैगन राइड्स (Wagon Rides)*
- Zombie Zumba™ (ज़ोम्बी जुम्बा™)
- एयरब्रुश टैटूज (Airbrush Tattoos)
- क्राफ्ट्स
- मनोरंजन
- मार्शमैलो रोस्टिंग (Marshmallow Roasting)

*चुनिंदा स्थान

ब्रैम्पटन रेक्रिएशन (Brampton Recreation) भी, 13, 20 और 29 अक्टूबर को चुनिंदा रेक्रिएशन सेंटर्स में, स्पूकी स्विम (Spooky Swim) और स्केट्स (Skates) का आयोजन कर रहा है। फ्राइट नाइट्स और स्पूकी स्विम तथा स्केट्स के लिए रजिस्टर करने हेतु, [यहां क्लिक करें \(click here\)](#)।

पम्पकिन पार्टी

पम्पकिन पार्टी (Pumpkin Party) हैलोवीन के जोश को एक और दिन बनाए रखती है – और इस बार, यह पहले से कहीं अधिक मजेदार है! 1 नवंबर को शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक, अपनी पोशाक पहनकर केन विलेन्स सक्वेयर (Ken Whillans Square) पर अपना कदू लेकर आएं। एन्वायरोड्रम (EnviroDrum) के द्वारा पेश किए जाने वाले लाइव मनोरंजन का आनंद लें और पॉपकॉर्न तथा गर्म ऐप्पल साइडर जैसी मुफ्त चीजों का मज़ा लें। कार्यक्रम के बाद कदू कम्पोस्ट किए जाएंगे।

जशन मनाते समय सुरक्षित रहें। जब शारीरिक दूरी न रखी जा सकती हो तो मास्क की पुरजोर सलाह दी जाती है। पम्पकिन पार्टी को स्विस् चैले (Swiss Chalet) के द्वारा उदारतापूर्वक प्रायोजित (स्पांसर) किया गया है। विवरणों के लिए, www.brampton.ca/recreation पर जाएं।

क्राफ्टी कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट (शिल्पकारी वाली पोशाक की प्रतियोगिता)

आपको 2021 हैलोवीन क्राफ्टी कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट (2021 Halloween Crafty Costume Contest) में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसका आयोजन मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown) और ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल के मेम्बर्स के द्वारा किया जा रहा है। अपनी रचनात्मक और भूतिया कला दिखाएं – #BramptonCraftiestCostume2021 का प्रयोग करते हुए अपनी पोशाक पहनकर फोटो पोस्ट करें या इसे 31 अक्टूबर, रात 8 बजे तक events@brampton.ca पर ईमेल करें। विजेताओं की घोषणा, 1 नवंबर को की जाएगी। हिस्सा लेने वालों की उम्र 10 वर्ष या इससे कम होनी आवश्यक है।

प्रतियोगिता के नियम और योग्यता के बारे में जानकारी brampton.ca/recreation पर प्राप्त की जा सकती है।

हवाले

“मैं बेहद उत्साहित हूँ कि हमारे निवासी इस वर्ष फिर हैलोवीन का जशन मना रहे हैं। मैं ब्रैम्पटन के निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे उन सभी प्रोग्रामों का लाभ उठाएं, जो सिटी स्पूर्की जशन में पेश कर रही है। फ्राइट नाइट्स से लेकर, क्राफ्टी कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट, ग्रेट पम्पकिन पार्टी तक, हर किसी के लिए आनंद लेने हेतु बहुत कुछ है। कृपया जशन मनाते समय हमारी कम्युनिटी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दें। मेरी ओर से सभी निवासियों को – हैलोवीन की शुभकामनाएं!”

– पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की और रीजन ऑफ पील की एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर के तौर पर, मुझे गर्व है कि हमारी काउंसिल ने ट्रीट एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम की हिमायत के लिए हमारे साइन-बाइ-लॉ में संशोधन किया है। मैं ब्रैम्पटन के निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे अपने सामने के लॉन्स पर पूरे गर्व से ट्रीट एक्सेसिबिलिटी का साइन बोर्ड लगाएं। मैं हमारी कम्युनिटी के बच्चों के लिए सुरक्षित, सुलभ और भागीदारी वाले जशन की कामना करता हूँ और हैलोवीन की शुभकामनाएं देता हूँ”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; मेम्बर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी; मेम्बर, रीजन ऑफ पील एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी

“मुझे इस वर्ष फिर पम्पकिन पार्टी के जशन का आयोजन देखकर बहुत खुशी हो रही है। ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है और यह कार्यक्रम निवासियों को न केवल एक और बार अपने मूर्तिकला संबंधी कौशल दिखाने का, बल्कि अपने कददुओं को कम्पोस्ट करके सही ढंग से उनका निपटान करने का अवसर भी देता है। कुछ शानदार इनाम जीतने के अवसर के लिए, क्राफ्टी कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लेना न भूलें।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10, चेयर, कापॉरेंट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हैलोवीन आ गया है और हमारे स्पूर्कटाक्यूलर व्यक्तिगत कार्यक्रम, फ्राइट नाइट्स और ग्रेट पम्पकिन पार्टी भी फिर आ गए हैं। मैं हर किसी को सलाह देती हूँ कि सुरक्षित रूप से जशन मनाएं, शारीरिक दूरी रखें और जब ऐसा संभव न हो तो मास्क पहनें। ब्रैम्पटन को हैलोवीन की शुभकामनाएं!”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, वाइस-चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca